



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 761 राँची, सोमवार,

30 सितम्बर, 2019 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2019

संख्या-04/लो०-01/2017/3023-- श्री सुधांशु शेखर मेहता, झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर के विरुद्ध देवघर जिला में पदस्थापन काल में लोकायुक्त कार्यालय के परिवाद संख्या-01/लोक (शिक्षा)-04/2017 द्वारा प्रतिवेदित मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या-1200 दिनांक-17-12-2018 द्वारा निलंबित करते हुए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-278 दिनांक-23-01-2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया।

श्री मेहता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभागीय संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-119 दिनांक- 22-04-2019 द्वारा प्राप्त हुआ।

जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप दस्तावेजों के आधार पर अप्रमाणित प्रतिवेदित है।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को सम्यक समीक्षोपरान्त स्वीकार कर विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य कुमार आनन्द,
सरकार के संयुक्त सचिव
